HEIDELBERGCEMENT

HeidelbergCement India Limited
CIN: L26942HR1958FLC042301
Registered Office
2nd Floor, Plot No. 68, Sector-44,
Gurugram, Haryana 122002, India
Phone +91-124-4503700
Fax +91-124-4147698
Website: www.mycemco.com

HCIL:SECTL:SE:2021-22

4 September 2021

BSE Ltd. Listing Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai - 400001 National Stock Exchange of India Ltd Listing Department, Exchange Plaza, C/1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051

Scrip Code:500292

Trading Symbol: Heidelberg

Dear Sir,

Sub: Copy of Notice advertisement regarding Annual General Meeting

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and the Securities and Exchange Board of India, copies of notice advertisement published in today's edition of Business Standard, English (all editions) and Business Standard, Hindi (Delhi edition) regarding Notice of 62nd Annual General Meeting of the Company scheduled to be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") on 27th September 2021 at 11.00 A.M. and details related to record date and e-voting facilities are attached.

Please take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For HeidelbergCement India Ltd.

Raiesh Relan

Legal Head & Company Secretary

Encl.: a.a.











GIFT City gains traction among hedge funds

Avendus 4th firm to get nod for setting up AIF; 5 others awaiting approval

Mumbai, 3 September

fund (AIF) industry with 30 per ₹4,000 crore (\$545 million)." cent market share, last week Services Centres Authority markets. (IFSCA) to set up at GIFT City.

issued to True Beacon, which received approval; SBI Funds was launched by Zerodha Management, ASK Investment founders Nikhil Kamath and Managers, and Phillip Capital Nithin Kamath, along with are setting up portfolio manhigh-profile investment bank- agement services. Nippon Life ing industry expert Richard India Asset Management appli-Pattle. This was followed by cation for fund managers/advi-Kedaara Capital and Multiples sor is under consideration. Alternate Asset

Management. **Richard Pattle** And, according suggested some to an industry offi- tweaks in the cial tracking devel- regulatory regime opments at GIFT like revisiting peak City, four other margin rules, which companies' appli- could potentially cations are under affect liquidity and are under consider- efficient price ation for setting up discovery

Speaking about the licence, investors looking at the Indian Andrew Holland, chief execu- markets. tive officer of Avendus Capital

Despite the current Covidrelated uncertainties, we aim to manage around \$500 million vendus Capital, India's worth of assets in the next 2-3 largest player in the years. Our India AUM (assets alternative investment under management) is around

Avendus' hedge fund will became the fourth firm to have long and short strategies receive a licence from the and the money it raises will be Financial invested in Indian financial

Around four fund man-The first such licence was agers/advisors have already

There are several others in the fund industry ecosystem at GIFT City whose licences are under consideration.

Holland added that GIFT has sevadvantages over other fundraising destinations for

"Regulatory environments Strategies LLP, said: "The GIFT sync, most fund industry eco-City IFSC based fund has system players for Indian marassumed priority at Avendus. kets also have presence in GIFT We have just last week secured IFSC including custodians, a licence and we are aiming to fund administrators, foreign opment, IFSCA. launch the first fund in October. investment service providers.

■ Hedge fund of India's largest AIF Avendus receives licence ■ Zerodha founders, first to get nod, intend to raise \$100-200 million from ■ Total ecosystem will soon have 30 players in GIFT based fund industry ■ Funds want domestic peak levels margin reviewed to

IFSC," he said.

attract more foreign

funds

IN DEMAND

fund industry.

momentum in participation by under an AIF structure," added institutions at IFSC. We have Pattle, who is CEO of the firm. seen participation of around 30 players from the fund industry from a tax perspective GIFT Public Markets Alternate for offshore and onshore are in covering AIFs, fund managers, administrators, PMS entities. IFSC is becoming an important gateway for global investors," said Dipesh Shah, head devel-

Richard Pattle, who teamed inflows," Pattle added.

Going forward, we see the fund up with Zerodha founder industry gaining traction at this Nithin and Nikhil Kamath to set up True Beacon, said the The IFSCA wants to see AIF now serves clients across GIFT emerge as a hub for the the world. "Our fund has been launched and we intend to raise are seeing great \$100-200 million initially

> "While operationally and City has provided an excellent base, as the ecosystem grows in Gandhinagar, this measure will more international and domestic FIs, further accelerating

Heading to developed country? Opt for larger sum insured

Foreign travel is opening up gradually. The United Arab Emirates (UAE), a favourite destination of Indian tourists, started issuing tourist visas from the end of August. Many of those looking to travel to the United States are quarantining in a third country to overcome the ban on direct entry of Indian tourists. With the festival-cumwinter tourism season approaching, more nations are likely to relax their ban on Indian tourists soon

The Covid-19 situation is still simmering in many geographies. If you plan to travel abroad soon, one way you can protect yourself is by purchasing adequate travel insurance. "Travel during these unprecedented times can cause significant stress and worry, so buy adequate insurance for security and peace of mind," says Ravi Vishwanath, president, accident and health business, HDFC ERGO General Insurance.

Must-have covers

Most travel policies offer a few basic features such as coverage for medical emergencies, baggage loss, expenses related to trip delays and cancellations, and loss of passport. "In addition, make sure the policy covers you against personal accident leading to injuries or accidental death. The policy should pay a lump-sum benefit if such an eventuality arises. Also, given

the current scenario, it must cover you for Covid," says Amit Chhabra, headhealth and travel insurance. Policybazaar.com.

Most travel insurance policies offer several add-on covers. "Coverage for bounced bookings of hotels and airlines, and travel extension cover can be availed by paying an additional



TRAVEL INSURANCE PREMIA ARE QUITE AFFORDABLE

Premia (in ₹) for sum insured of \$250,000

■ Destination: UAE ■ Destination: USA Tata Lombard

General insurance company Premium rates are for 30-year-old male

premium. If you are buying a student travel policy, then look for covers specifically mandated by the university. says Rakesh Jain, executive director and chief executive officer, Reliance General Insurance.

Don't scrimp on cover amount

Since the cost of medical treatment in many parts of the world is much higher than in India, it is advisable to buy an adequate cover when you travel. When trying to decide on the right amount of insurance take into account factors like your age, length of stay, and the cost of treatment in the country of visit,' says Vishwanath.

Especially when travelling to developed-world countries, where the cost of treatment tends to be exorbitant, it is prudent to go for a high sum insured. Chhabra suggests a minimum cover of \$100,000. One point that works in favour of customers who desire a high sum insured is that the rate at which the premium increases declines as you move into

higher sum insured brackets

Be claim compliant

Read the terms and conditions carefully when zeroing in on a travel plan. "Be well informed about policy exclusions. For instance, many companies do not cover accidents that occur while undertaking adventure sports," savs Vishwanath.

The purpose of buying travel insurance will get defeated if your claim is rejected due to mistakes that could have been avoided at the time of purchase. Disclose all the necessary details regarding pre-existing illnesses at the time of purchase.

"Keep the claims and assistance numbers and email handy, so that you are able to contact the insurer quickly. Also, report an incident as soon as it occurs and produce as much evidence as possible," says

Be meticulous when filing a claim. Keep all the bills and necessary docical treatments and make them available to the insurer for claim

Biggest wealth fund excludes ONGC from portfolio

State-owned Oil & Natural Gas Corp has been excluded from the world's biggest sovereign wealth fund, due to the "unacceptable risk that the company is contributing to serious violations of the rights of individuals" in its joint ventures with South Sudan's national oil company

Nile Petroleum Corporation. The exclusion was announced by Norges Bank late Thursday after a recommendation from the Council on Ethics, an independent body that investigates possible norm breaches in the wealth fund's \$1.4 trillion portfolio. The

Norwegian wealth fund is the world's single largest investor in listed companies, owning about 1.4 per cent globally.

> The ethics council said that companies operating in situations of war and conflict must be particularly careful when there's a known risk for norm violations. **BLOOMBERG**

ESDS Software files IPO papers to raise ₹1,300 crore

Cloud services and data centre firm ESDS Software Solution has filed preliminary papers with capital markets regulator Sebi to raise ₹1.200-1,300 crore through an initial share sale

The initial public offering (IPO) consists of fresh share issuance worth ₹ 322 crore

and an offer for sale (OFS) of up to 21.5 million equity shares by investors and a member of the promoter group, according to draft red herring prospectus (DRHP). The OFS comprises sale of up to 16.8 million equity shares by South Asia Growth Fund II LP, up to 4.23 million equity shares by GEF

ESDS Partners LLC, up to 400,000 equity shares by Sarla Prakashchandra Somani and up to 34,000 equity shares by South Asia EBT Trust

The Nashik-based firm may consider a pre-IPO placement aggregating up to ₹60



Regd. Office-D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur-208 022 TEL: +91 (0512) 2691 113 - 6; FAX: +91(0512) 2691117; Email: secretary@kanplas.com; Web: www.kanplas.com

NOTICE OF RECORD DATE TO DECIDE THE **ENTITLEMENT OF BONUS SHARES**

Notice is hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Clause 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, the Record Date shall be 16th September, 2021 to decide the entitlement of Bonus Shares, if approved in the Annual General Meeting held on 03/09/2021.

SPEARHEAD METALS AND ALLOYS LIMITED

Tel No. 02271191000 Email ID: compliances@ladam.in CIN: U27109MH1990PLC05608

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO

CONFERENCING (VC)/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

Spearhead Metals And Alloys Limited will be held on Wednesday, 29th

September, 2021 at 03.30 P.M (IST) through Video Conferencing, to transact the

Businesses, as set out in the Notice of AGM. The Electronic copies of the Notice

of AGM have been sent on September 3, 2021 to all the members whose email

IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) as on August 27,

2021 in accordance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs

dated 8th April, 2020, 13th April, 2020, 5th May, 2020 and January 13, 2021

along with SEBI circulars dated 12th May, 2020. An advertisement requesting

shareholders to register their mail id was published in the newspaper dated

August 24, 2021. The same is also available on the CDSL website

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form,

as on the cut-off date of Wednesday, September 22, 2021 may cast their vote

electronically on the Ordinary Business as set out in the Notice of AGM through

electronic voting system of CDSL from a place other than venue of AGM

. the Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting

i. the remote e-voting shall commence on Sunday, September 26, 2021 (9.00 A.M);

iii. the remote e-voting shall end on Tuesday, September 28, 2021 (5.00 P.M).;

iv. the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or

v. any person, who acquires shares of the Company and become member of the

Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the

cut-off date Wednesday, September 22, 2021 may obtain the login

ID and password by sending a request at following email id's:

a) The remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid

date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the

b) The facility for voting at the AGM shall be made available through e-voting by CDSL;

may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again;

date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

c) The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM

d) A person whose name is recorded in the register of members or in the

register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off

In case of queries, members may refer to the Frequently Asked Questions

(FAQs) for members and e-voting user manual for members at

the Downloads Section of www.evotingindia.com, or email at

helpdesk.evoting@cdslindia.com, Tel: 022-23058542/43 or contact the

company on email at support@purvashare.com or compliances@ladam.in

who will also address grievances connected with the voting by electronic

For and on behalf of Spearhead Metals And Alloys Limited

member, the member shall not be allowed to change it subsequently;

("remote e-voting"). All the members are informed that:

at the AGM is Wednesday, September 22, 2021

helpdesk.evoting@cdslindia.com or issuer/RTA.

The notice is hereby given that the Annual General Meeting ("AGM") of

For Kanpur Plastipack Limited

Place: Kanpur Date: 03.09.2021

www.evotingindia.com

means.

Place: Thane

Date: September 4, 2021

(Ankur Srivastava) Company Secretary

HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301

Regd. Office: 2nd Floor, Plot No. 68, Sector 44, Gurugram, Haryana -122002

Ph. +91 0124-4503700, Fax +91 0124-4147698, Email Id: investors.mcl@mycem.in; Website: www.mycemco.com NOTICE

This is in continuation to our Notice Advertisement published on 28th August 2021, vide which we had informed that in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 "Act") and Rules framed thereunder read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 20/2020 and 02/2021, dated 8th April, 2020, 13th April 2020, 5th May 2020 and 13th anuary 2021 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars" and Circular dated 12th May 2020 and 15th January 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), the 62nd Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Monday, 27th September 2021 at 11:00 A.M. IST through Video Conferencing ('VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out the Notice of 62nd AGM

The Annual Report for FY2020-21 containing Notice of the AGM, financial statement for the financial year ended 31st March 2021, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto along with the login detail for joining the AGM through VC / OAVM facility and casting vote through e-voting facility has been sent on Friday, 3rd September 2021 through e-mail to all those Member whose e-mail addresses were registered with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company or with their respective Depository Participants ("DP") accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular. The Annual Report for FY2020-21 is also available on the Company's website (www.mycemco.com), Stock Exchange's website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com)

n compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with the Compani Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, Secretarial Standard - 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India and MCA Circulars, the Members are being provided through NSDL the facility to cast their vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) on all the resolutions set forth in the Notice of the AGM. The remote e-voting shall commence on Friday, 24th September 2021 (9.00 A.M. IST

and end on Sunday, 26th September 2021 (5.00 P.M. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. Thereafter, the remote e-voting module shall be The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also

participate in the AGM through VC / OAVM facility but shall not be entitled to cast the

ote again through e-voting facility available during the AGM. Once a Member has cast vote on a resolution, the Member will not be allowed to change t subsequently. Detailed instructions for remote e-voting, joining the AGM and e-voting during the AGM are provided in the Notice of AGM.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them a on the Cut-off date i.e., Monday, 20th September 2021. A person, whose name is ecorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date shall only be entitled to join the AGM, avail the remote e-voting and e-voting facility during the AGM. A person who ceases to be Member as on Cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

Any person, who acquires shares and becomes a member of the Company after th date of electronic dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the Cut-of date, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of AGM or sending a request to evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password to cast their vote.

f you have any query relating to e-voting facility, please refer to the Frequently Asker Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section at www.evoting.nsdl.com or contact at NSDL's toll free no. 1800 222-990 or send a request to evoting@nsdl.co.in. In case of any grievance connected with e-voting facility, please contact Ms. Sarita Mote, NSDL, 4th Floor, 'A' Trade World Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, E mail: evoting@nsdl.co.in, Tel.:+ 1800 1020 990 and 1800 224 430.

In case you have not yet registered your email address with the RTA/Depositor Participant, please follow the instructions given below to register the same:

Send a request to the RTA at irg@integratedindia.in providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card) AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for

registering email address. Please contact your Depository Participant (DP) for registerin Demat holding your email address and updating bank account details in you demat account, as per the procedure advised by your DP.

Further the Company has fixed Monday, 20th September 2021 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to receive dividend for the financial year 2020-21 and attend AGM. The dividend on equity shares, if declared, at the AGM vill be paid to the members within thirty days from the date of AGM

For HeidelbergCement India Ltd Rajesh Relar



Regd. Office: 122, Mistry Bhavan, 2nd Floor, Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai - 400 020 Ph.: +91-22-66256262; Fax: +91-22-22822031; Email: investors@orbitexports.com; Website: www.orbitexports.com CIN NO.: L40300MH1983PLC030872

NOTICE OF 38[™] ANNUAL GENERAL MEETING

otice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") o Orbit Exports Limited ("the Company") will be held on September 29 2021 at 03:00 p.m. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"), to transact the business as set out in the

The AGM is being held through VC/OAVM in compliance with the of Corporate Affairs ("MCA") Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 read with Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021 and other relevant circulars issued by MCA (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEB Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12 read with SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred as "Applicable Circulars"). The VC/OAVM facility is provided by National Securities Depository Limited ("NSDL").

In terms of the Applicable Circulars, the Notice of AGM together with the Annual Report 2020-2021 will be sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with thei Depository Participant (s)/Registrar and Transfer Agent (RTA) of the Company, i.e., Link Intime India Private Limited. As per the above Circulars of MCA & SEBI, no physical copies of the Notice of AGM and Annual Report will be sent to any Member. Members may note that the Notice of AGM and Annual Report 2020-2021 will be made available on Company's website at <u>www.orbitexports.com</u> and on websites of Stock Exchanges-BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at <u>www.nseindia.com</u>.

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per Section 103 of

The Company is also providing remote e-voting facility (remote e-voting) to all its members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of AGM. Also, the Company shall be providing the facility for voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure of remote e-voting / e-voting will be provided in the Notice of AGM.

The Company has notified closure of Register of Members and Share Transfer Books from September 23, 2021 to September 29, 2021 (both days inclusive) for the purpose of the Annual General Meeting of the Company. n case Member(s) have not registered their email address, they may

follow the following instructions: Manner of registering/updating e-mail addresses: Physical Holding: Members may send an email request to the Company at

nvestors@orbitexports.com or to our RTA at rnt/helpdesk@linkintime.co.ir Scanned copy of the signed request letter mentioning your Name, Folio

Number, Share Certificate Number, complete address, email address and mobile number; Scanned copy of self-attested PAN card. Demat Holding: Members holding shares in dematerialized mode are

equested to register/ update their email addresses with their respective Depository Participant. Notice of 38th AGM will be sent to the Members in accordance with the

applicable laws on their registered email addresses in due course For Orbit Exports Limited

Place: Mumbai Neha Devpura Date: September 03, 2021 Company Secretary

AHMEDNAGAR MUNICIPAL CORPORTION

Tender Notice No. ANMC717408-1 for 2021-22 Amrut Abhiyan Ahmednagar **Underground Drainage Scheme**

Providing, erecting, commissioning & giving satisfactory test & trial of Sewage Submersible pumping machinery and allied electrical and mechanical works for Pumping station at Phulsaundar Mala. Amount - Rs.4,03,12,801/-. Please visit website www.mahatenders.gov.in for detailed information.

Date -02/09/2021

Commissioner Ahmednagar Municipal Corporation



GOVERNMENT OF TAMIL NADU FINANCE DEPARTMENT, **CHENNAI-9**

Dated: September 04, 2021

PRESS COMMUNIQUE

It is notified for general information that the outstanding balance of 8.85% Tamil Nadu Government Stock, 2021 issued in terms of the Government of Tamil Nadu, Finance Department, Notification No.220(L)/W&M-II/2011, dated September 30, 2011 will be repaid at par on October 05, 2021 with interest due up to and including October 04, 2021 In the event of a holiday being declared on the aforesaid date by any State Government under the Negotiable Instruments Act, 1881, the loan will be repaid by the paying offices in that State on the previous working day No interest will accrue on the loan from and after October 05, 2021.

As per sub-regulation 24(2) and 24(3) of Government Securities Regulations, 2007 payment of maturity proceeds to the registered holder of Government Security held in the form of Subsidiary General Ledger or Constituent Subsidiary General Ledger account or Stock Certificate shall be made by a pay order incorporating the relevant particulars of his bank account or by credit to the account of the holder in any bank having facility of receipt of funds through electronic means. For the purpose of making payment in respect of the securities, the original subscriber or the subsequent holders of such a Government Securities, as the case may be, shall submit to the Bank or Treasury and Sub-Treasury or branch of State Bank of India, where they are enfaced / registered for payment of interest, as the case may be, the relevant particulars of their bank account.

However, in the absence of relevant particulars of bank account/mandate for receipt of funds through electronic means, to facilitate repayment on the due date, holders of 8.85% Tamil Nadu Government Stock 2021, should tender their securities at the Public Debt Office, 20 days in advance. The securities should be tendered for repayment

duly discharged on the reverse thereof as under: "Received the Principal due on the Certificate".

It should be particularly noted that at places where the treasury work is done by a branch of the State Bank of India the securities, if they are in the form of Stock Certificates should be tendered at the branch of the bank concerned and not at the Treasury or Sub-Treasury.

Holders who wish to receive payment at places other than those where the securities have been enfaced for paymen should send them duly discharged to the Public Debt Office concerned by Registered and Insured Post. The Public Debt Office will make payment by issuing a draft payable at any Treasury/Sub-Treasury or branch of State Bank of India conducting Government Treasury work in the State of Tamil Nadu.

S. KRISHNAN,

Additional Chief Secretary to Government Finance Department, Chennai-9. DIPR/794/DISPLAY/2021 "சோதனை கடந்து சுதந்திரம் அடைந்தோம், சாதனை புரிந்து சரித்திரம் படைப்போம்.'

Sameer More Date: 3rd September, 2021 Legal Head & Company Secretary Director DIN: 8259314

फेडरल बैंक आपका संपूर्ण बैंकिंग पार्टनर

लॉकर उपयोग के संदर्भ में सूचना फेडरल बैंक एतद् द्वारा सूचना देता है कि जिन व्यक्तियों द्वारा किराए पर लॉकर लिए है उनके रख–रखाव में कु अनियमितताओं को देखा गया है जिसका विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है। संबंधित लॉकर रखनेवाले(लॉ) मेजी गई सूचना असेवित वापस लौटा दी गई है। लॉकर किरायेदार(रॉ)/इच्छुक प क्षों को एतद् द्वारा सूचित कि जाता है कि यदि वे इस सूचना की दिनांक से 7 दिनों के भीतर, शाखा का दौरा करके, लॉकर व्यवस्ता के नियमित करने में विफल रहते हैं, तो मजबूरन बैंक को लॉकर किरायेदार (रॉ) की लागत और खर्चों पर जो बैंक उचित समझे, लॉकर(रों) को खोलने और आवश्यक आगे की कार्रवाई करने के लिए विवश किया जाएगा।

	शाखा	लॉकर संख्या	किरायेदार(रों) का नाम और पता
	गुरूग्राम, हरियाणा	MSJA007	श्री अमित
Г	दिनांक : 02.09.2021		प्रति द फेडरल बैंक लिमिटेड
L	स्थान : गुरूग्राम		शाखा गुरूग्राम

AND Industries Limited

एवीएसएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत और कॉर्पोरेशन ऑफिस : इकाई सं. 1001, 10वां तल, एनडीएम-2, वाजिपुर

जिला सेन्टर, नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 CIN: L18101DL2003PLC121698 संपर्क सं. : 011-47561234, 011-45561234 ईमेल : AVSL_PVC@AVSL.CO.IN वेबसाइट : WWW.AVSL.CO.IN

18वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद द्वारा सचित कि<mark>या गया है कि कंपनी की 18वीं वार्षिक आम बैठक (''</mark>एजीएम'') गुरुवार 30 सितम्बर, 2021 को सबह 11:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय इकाई संख्या 1001, 10वीं मंजिल, एनडीएम-2, वजीरपुर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 में, एजीएम की सूचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवस्था का लेन-देन करने के लिए आयोजित की जाएगी।

पुस्तक बंद करने की सूचना

कंपनी के सभी शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों और शेयर ट्रांसफर बुक्स का रजिस्टर 21 सितम्बर, 2021 से 01 अक्टूबर, 2021 (दोनों दिन समावेशी) के लिए एजीएम के उद्देश्य बंद रहेगा।

सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि:-

सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई, 2020 के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपंत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुसार और अन्य लागू परिपत्रों कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी 15 जनवरी, 2021 को परिपत्र संख्या सेबी/एचओंडी/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 एजीएम और एकीकृत की सचना कंपनी या डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्टॉनिक और भौतिक प्रेषण 04 सितम्बर, 2021 को पूरा कर लिया गया है। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति भी कंपनी की वेबसाइट WWW.AVSL.CO.IN पर उपलब्ध है।

2. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे नाम, पृष्ठ संख्या और पूरा पता, पैन कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी और किसी भी दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी (जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कॉपी आदि) CSRISHIKA@AVSL.CO को ईमेल द्वारा कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्यों के पते के समर्थन में हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन कॉपी भेजकर उनके ईमेल पते पंजीकृत कर सकते हैं। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य उनके ई मेल पते को उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी साथ अपडेट कर सकते हैं।

नोट : यह बैठक सरकार के मानदंड जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, बैठक कक्ष कोसाफ करना तापमान की जांच आदि को ध्यान में रखकर आयोजित की जाएगी।

एवीएसएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता./-प्रबंधक निदेशव

दिनांक : 4, सितम्बर 2021

स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड CIN: U25208HR1983PLC015135

पंजी. कार्यालय : 23/7, मथुरा रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004 फोन नंबर: 0129.4296500

र्ड-मेल: secretarial@studds.com, वेबसाइट: www.studds.com

39वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना तथा ई-वोटिंग जानकारी

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड की 39वीं वार्षिक सामान्य बैठक मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021 को अप. 4.00 बजे, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु, कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों एवं उसके नियमों तदधीन संशोधनों सहित के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020 तथा सर्कुलर नंबर 02/2021 किसी त्यारा स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगैर, वीडियो कॉन्फ्रेन्स / अन्य ऑडिय विजुअल मीन्स ("वीसी / ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से, आयोजित की जाएगी।

एमसीए सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना सहित वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय विवरण (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किए जाने हेत् अपेक्षित अन्य दस्तावेजों सहित) इलेक्ट्रॉनिक विधि से कम्पनी के उन सभी सदस्यों के भेजी जा चुकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडी'ज रिजस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट ("आरटीए अथवा संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ('डीपी'ज') के पास 27 अगस्त, 2021 को पंजीबद्ध हैं सदस्यगण नोट करें कि एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.studds.com/investor-relations पर तथा आरटीए की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध हैं।

कम्पनी ने लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम के संचालन तथा इसके सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई–वोटिंग") सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुबंधित की हैं। सदस्यगण अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम ई—वोटिंग द्वारा एजीएम की सूचना में वर्णित / उल्लेखित विधि में डाल सकते हैं।

बोर्ड ने सीएस मनीष कुमार, मनीष के ऐंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज, के पार्टनर को ई–वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा एक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है। घोषित परिणाम संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट www.studds.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

एमसीए सर्कुलर्स के निबन्धनों में, चुंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, अत परोक्षी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 105 के तहत सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा, एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम र्द-वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है। सदस्यों को सचित किया जाता है कि

क) वार्षिक रिपोर्ट 2020—21 सहित एजीएम सूचना ई—मेल भेजने की तिथि : 02 सितम्बर, 2021 ख) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, वीसी / ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम प्रतिभागिता तथा एजीएम के दौरान ई—वोटिंग के प्रयोजन हेतू सदस्यों की ग्राह्मता निर्धारण हेतु "कट-ऑफ" तिथि : 21 सितम्बर, 2021 (व्यवसाय समाप्ति के समय पर)।

ग) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में अनुमोदित किया गया, प्राप्त करने के लिए सदस्यों की ग्राह्मता निर्धारण हेतु रेकार्ड तिथि : 28 सिंतम्बर, 2021

घ) रिमोट ई-वोटिंग आरंभ होने की तिथि एवं समय : 25 सितम्बर, 2021 पूर्वा. 9.00 बजे

ङ) रिमोट ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि एवं समय : 27 सितम्बर, 2021 अप. 5.00 बजे

(आईएसटी)। 27 सितम्बर, 2021 को अप. 5.00 बजे (आईएसटी) के पश्चात रिमोट ई—वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। च) जो सदस्य अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग दारा डाल चके हैं वे भी एजीएम में उपस्थित हो

सकते हैं, परंतु उनको एजीएम में पुन बीट डालने का अधिकार नहीं होगा। सदस्यों को एक बार वोट डाल देने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

छ) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इवेन्ट नंबर (ईवीईएन) : 210328

ज) केवल वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला होगा तथा वे ऐसा करने हेतु किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं हैं वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने हेत ग्राह्य होंगे।

 झ) कोई व्यक्ति, जिसका नाम, डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लामार्थी स्वामियों के रंजिस्टर अथवा सदस्यों के रंजिस्टर में, कट—ऑफ तिथि को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा तथा एजीएम में ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से वोटिंग का हकदार

ञ) यदि अंतिम लाभांश, निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत अनुसार, एजीएम में अनुमोदित किया जाता है, तो ऐसे लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर कटौती ('टीडीएस') की शर्त के तहत 30 दिन की सांविधिक समय सीमा के भीतर किया जाएगा।

 ट) कोई व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयरों का अर्जन करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और जो कट—ऑफ तिथि को शेयरों का धारक है, वह secretarial@studds.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति, जो कट—ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसको यह सूचना जानकारी मात्र के निमित्त समझनी चाहिए।

ठ) सदस्यगण केवल वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम र जुड़ने के लिए अनुदेश, एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे सदस्यों की गणना अधिनयम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

ड) किसी संदेह की स्थिति में, सदस्यगण आरटीए से ई-मेल : enotices@linkintime.co.in पर अथवा फोन : 022-49186000 पर अथवा श्री हितेश वढेरा, कम्पनी सचिव से ई-मेल secretarial@studds.com पर अथवा फोन : 0129-4296500 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने अपनी ई–मेल आईडी'ज डीपी'ज/आरटीए के पास पंजीकृत नहीं करवाई है उनके लिए एजीएम की सचना में सचीबद्ध प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए ई-मेल आईडी'ज के पंजीकरण तथा यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया

क) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, कृपया फोलियो नंबर, सदस्य का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (फ्रांट और बैक) पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति) आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति) ई-मेल द्वारा secretarial@studds.com को भेजें।

ख) यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं, कृपया डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 डिजिट डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 डिजिट लागार्थी आईडी) नाम क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्व-संत्यापित प्रति) secretarial@studds.com को उपलब्ध कराएं। . सदस्यगण अपनी ई–मेल आईडी'ज तथा स्थायी खाता नंबर ("पैन") का पंजीकरण निम्न प्रक्रिय

के अनुसार करवा सकते हैं : क) सदस्यगण, जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं : भौतिक रूप में शेयरों के धारक कम्पनी व सदस्यगण, जिनके द्वारा अपनी ई–मेल आईडी'ज पंजीकृत नहीं करवाई गई हैं, वे अपनी ई-मेल आईडी'ज पैन कार्ड की स्कैन की गई स्व-सत्यापित प्रति के साथ

secretarial@studds.com पर लिखकर करवा सकते हैं। ख) सदस्यगण, जिनके शेयर अ–भौतिक (डिमैटीरियलाइज्ड) रूप में हैं : अ–भौतिक (डिमैटीरियलाइज्ड) रूप में धारित शेयरों के संबंध में, सदस्यगण को अपनी ई–मेल आईडी'ज अपने संबंधित डीपी'ज के पास उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने द्वारा पंजीकृत

कृते स्टड्स एक्सेसरीज लिमिटेड

स्थान : फरीदाबाद

तिथि: 03 सितम्बर, 2021

हितेश वढेरा कम्पनी सचिव FCS-10907

Place: Noida Date: September 4, 2021 NOTICE is hereby given that the bel

विवेक कुमार

सार्वजिनिक घोषणा (भारतीय दिवालिया और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14) माउंट एवरेस्ट रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड के हिस्सेदारों के ध्याना

माउंट एवरेस्ट रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड निगमित व्यक्ति का नाम 2 निगमित व्यक्ति के गढन की तिथि पाधिकारी जिनके अधीन निगमित कंपनियों के पंजीयक दिल्ली व्यक्ति का गढन/पंजीयन किया गया है निगमित व्यक्ति का कॉरपोरेट आईडेंटिटी नम्बर U70101DL1996PTC076612 लिमिटेड लॉयब्लिटी आईडेंटिफिकेशन नम्बर निगमित व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय (यदि कोई है) का पता पंजीकृत कार्यालयः 204, प्रगति हाऊस, 47-48, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 नेगमित व्यक्ति के परिसमापन आरम्भ होने की तारीख परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल एड्रेस, विवेक कुमार दुरभाष नम्बर एवं पंजीयन संख्या IBBI/IPA-002/IP-N00008/2016-2017

पताः सी-604, रोजवुड अपार्टमेंट्स, मयूर विहार-I, एक्सटेंशन, दिल्ली-110 091 ईमेलः vee_singh@yahoo.com मोबाइलः 9599292249 30 सितम्बर, 2021 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि **माउंट एवरेस्ट रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड** ने स्वैच्छिक परिसम् **31 अगस्त, 2021** को आरम्म किया है।

माउंट एवरेस्ट रियलटर्स पाडवेट लिमिटेड के हिस्सेदारों को एतददारा परिसमापक के पास मद 7 में निष्ट प्रसार रिपारित आक्षेप लिएकि ये जिस्ती हैं। उच्जितिबात पर्ते पर 30 सिताबर, 2021 को अपने दावों के साक्ष्य जाना करने को कहा जाता है। वित्तीय लेनदारों को अपने दावों के साक्ष्य सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करना होगा। अन्य सभी हिस्सेटार अपने दातों के साक्ष्य व्यक्तिगत रूप से डाक दारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर

सकते हैं। दावों के गलत अथवा झूठे साक्ष्य जमा करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

तारीखः 3 सितम्बर, 2021 स्थानः दिल्ली माउंट एवरेस्ट रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड के परिर

ऑटोज लिमिटेड पंजीकत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. बी-26. इंस्टीटयशनल एरिया,

सेक्टर-32, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 सीआईएन : L30103HR1983PLC026142, वेबसाइट : www.omaxauto.com

ई-मेल : investors@omaxauto.com, दुरभाष : +91-124434300 फैक्स : +91-124-2580016

38वीं वार्षिक आम बैठक की सदस्यों को सचना जारी कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ('एमसीए') ने क्रमशः अपने परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल.2020: 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल. 2020. 20/2020 दिनांक 5 मर्ड.

2020 और 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 ('एमसीए परिपत्र') के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') द्वारा किसी कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थित के बिना वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा क्रमश सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 और सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 ('सेबी परिपत्र') के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 एवं एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने गुरुवार, 30 सितंबर, 2021 को 10:00 बजे पूर्वा. कंपनी के 38व वार्षिक आम बैठक को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बुलाने का निर्णय लिया है। कपया ध्यान दें कि सदस्यों को नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक पति भेजने की आवश्यकता को एमसी।

और सेबी परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। सेबी और एमसीए परिपत्रों के पावधानों क अनपालन करने के लिए, वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से 38वीं एजीएम में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सहित लॉगिन विवरण के साथ-साथ 38वीं एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते पहले से ही कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए) या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपीएस) के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 38वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने, एजीएम में मतदान करने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के निर्देश 38वीं एजीएम की सचना में प्रदान किए जाएंगे 38वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.omaxauto.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिन्होंने कंपनी या आरटीए के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे 38वीं एजीएम की सुचना, वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण की प्राप्ति हेत अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराने के लिए. अपने नाम, फोलियो नंबर, शेयर प्रमाणपत्रों की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी उपलब्ध कराते हुए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर अन्तरण एजेंट को को delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर या कंपनी के कंपनी सचिव से investors@omaxauto.com या cs@omaxauto.com पर संपर्क करें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई-मेल पते पंजीकत नहीं हैं, उनसे अनरोध है कि वे 38वी

एजीएम की सचना, वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सविधा के माध्यम से एजीएम मे शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु अपना ई-मेल पता अपने डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीपी के साथ पंजीकृत करें। पंजीकृत ई-मेल पते का उपयोग भविष्य में संचार भेजने वे

कोई भी व्यक्ति, जो 38वीं एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तारीख के बाद शेयर हासिल करत है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तारीख यानी गुरुवार, 23 सितंबर, 2021 को शेयर धारण करता है, वह कंपनी की वेबसाइट www.omaxauto.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध होने वाली 38वीं एजीएम की सुचन में उल्लिखित निर्देश का अनुपालन करके लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। ।

ओमैक्स ऑटोज लिमिटेड रविन्दर सिंह कटारिया

कम्पनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम तिथि : 01.09.2021



Samvardhana Motherson International Limited

Regd. Office: Unit 705, C Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051, Maharashtra

Tel: +91-22-61354800, E-mail: smil@motherson.com, Website: www.smil.co.in CIN: U74900MH2004PLC287011

NOTICE OF 16[™] ANNUAL GENERAL MEETING

Members may note that:

In view of continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA') vide its General Circulars dated January 13, 2021 to be read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020 and January 13, 2021 and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 (collectively referred to as 'Applicable Circulars') permitted to hold Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder read with Applicable Circulars, the 16th AGM of the Company will be held on Thursday, September 30, 2021 at 3.00 p.m. through Video Conferencing (VC)/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue, to transact the business as set out in the

notice of 16th AGM. Pursuant to the Applicable Circulars, the Notice of the 16th AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year ended March 31, 2021 along with the login details for joining the 16" AGM through VC/OAVM including e-voting shall be sent through e-mail facility to all members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The Members can join and participate in the 16th AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the 16th AGM shall be provided in the Notice of the 16th AGM. The Members participating through VC / OAVM facility shall be counted for the numose of reckoning the quarum under Section 103 of the Act. The Notice of the 16th AGM and the Annual Report will also be made available on the website of the Company at www.smil.co.in and on the website of Company's Registrar and Transfer Agent, Link Intime India Private Ltd. at www.linkintime.co.in. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA circulars.

The Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice of 16th AGM. Detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM is provided in the Notice of 16th AGM. Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the businesses as set out in the AGM Notice through e-voting.

Members holding shares in physical form who have not registered their e-mail address with the Company, can register their e-mail address for receipt of Notice of 16th AGM, Annual Report and login details for joining the 16th AGM through VC / OAVM facility including e-voting, by visiting the following link: http://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html or by writing to the Registrar & Share Transfer Agent (RTA) with details of folio number and attaching the self-attested copy of PAN Card at rnt.helpdesk@linkintime.co.in in support for registering e-mail address

Members holding shares in dematerialized mode are requested to register update their email addresses with the relevant Depository Participant for receip of Notice of 16th AGM, Annual Report and login details for joining the 16th AGM through VC / OAVM facility including e-voting

In case the Members have any queries or issues regarding remote e-voting or e-voting, please contact Mr. Rajiv Ranjan, Assistant Vice President at Linkintime at C-101, 247 Park LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai- 400078, Maharashtra o refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call at :- Tel: 022 - 49186000.

Any person, who acquire shares and become Member of the Company after the date of electronic dispatch of Notice of 16th AGM and holding shares as on the cutoff date i.e. September 23, 2021, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 16th AGM or sending a request at smil@motherson.com and shamwant.kushwah@linkintime.co.in.

riii. The manner in which the Members can give their mandate for receiving dividends shall be as per the process mentioned in the Notice of 16th AGM The notice of 16th AGM will be sent to the Members in accordance with the

applicable laws and applicable circulars on their registered e-mail addresses in due course. The above is being issued for the information and benefit of all the Members of the

Company and is in compliance with the applicable Circulars For Samvardhana Motherson International Limited

Sanjay Mehta

Director (DIN: 03215388)

PUBLIC NOTICE

s Sub Broker / Authorised Person of Kotak Securities Limited.									
Sub Broker/ Authorised Person Name	Trade Name	Exchange Registration Numbers of Sub Broker/ Authorised Person	Address of Sub Broker/ Authorised Person						
SUMIT	SUMIT VASHISTHA		F-50 PREM NAGAR-2 GUJAR						
VASHISTHA		BSE - AP0106730177875	KITHADI JAIPUR - 302019						

Please note that above mention Sub Broker (SB)/Authorised Person (AP) is no longer associated wit us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own risk. Kota Securities Ltd. shall no illing which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned SB/AP.

kotak° Kotak Securities Limited. Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Ku Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. CIN: U99999MH1994PLC134051
Telephone No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430. Website: www.kotak.com www.kotaksecurities.com. Correspondence Address: Infinity IT Park, Bldg. No 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai 400097. Telephone No: 42856825. SEBI Registration No: INZ000200137 (Member of BSE, NSE, MSE, MCX & NCDEX), AMFI ARN 0164, PMS INP000000258, and Research Analyst INH000000586. NSDL/CDSL: IN-DP-NSDL-23-97.



एमएमटीसी लिमिटेड कोर #1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, ७, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003, फोन नंबर: 24362200, 24361889 फैक्स संख्या 24360724, ईमेल: ganarayanan@mmtclimited.com वेबसाइटः www.mmtclimited.com, सीआईएनः L51909DL1963GOI004033

विषय: शेयरधारकों द्वारा कंपनी में धारित शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में ट्रांसफर करने के लिए अनिवार्य सूचना यह नोटिस कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों, जिसके साथ कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 तथा समय–समय पर . यथासंशोधित ("नियम") पठनीय है. के अनसरण में प्रकाशित किया जाता है।

नियमों के अनुसार कंपनी के ऐसे सभी ईविवटी शेयरों, जिनके लिए लगातार 7 (सात) वर्षे तक लाभांश का भुगतान नहीं हो सका है अथवा उनके संबंध में लाभांश भुगतान का क्लेम नहीं किया गया है, उनका उपरोक्त अधिनियम और नियमों के अनुसार आईईपीएफ सस्पेंस खाते में टांसफर किया जाना अनिवार्य है।

ऐसे सभी शेयरधारकों, जिनहोंने वित्तीय वर्ष 2013—14 के लिए अंतिम लाभांश के लिए अपने क्लेम नहीं भेजे हैं तथा नियमों के तहत इनके शेयर आईईपीएफ को ट्रांसफर किए जाने अनिवार्य हैं, को उनके रजिस्टर्ड पते पर सूचना भेजी जाएगी। संबंधित शेयरधारकों से अनरोध है कि वे वित्त वर्ष 2013—14 के लिए क्लेम न किए गए / भगतान न हो सके अंतिम लाभांश के लिए अपने क्लेम दिनांक 15.10.2021 को या उससे पहले कंपनी के रजिस्टार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंटस लिमिटेड से संपर्क करें अन्यथा नियमों की आवश्यकताओं के अनुसरण में, कंपनी उनके शेयरों को नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आईईपीएफ खाते में ट्रांसफर कर देगी। आईईपीएफ खाते मे स्थानांतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

संबंधित शेयरधारकों का पूरा विवरण और आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित करने के लिए दायी उनके शेयरों के ब्योरे कंपनी की वेबसाइट www.mmtclimited.com पर उपलब्ध हैं। ऐसे शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं तथा उनके शेयर आईईपीएफ सस्पेंस खाते में स्थानांतरित करने के दायी हैं उन्हें डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे और इसके बाद इन्हें आईईपीएफ सस्पेंस खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। तदनसार, संबंधित शेयरधारकों द्वारा धारित मल शेयर प्रमाण पत्र स्वत: रद्द हो जाएंगे। शेयरधारक यह भी नोट कर लें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड़ किए गए विवरण नियमों के अनसार आईईपीएफ खाते में शेयरों के टांसफर के उद्देश्य से डप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से पर्याप्त नोटिस माना जाता है। इसी प्रकार यदि शेयर डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, तो कंपनी आईईपीएफ को शेयरों के ट्रांसफर के लिए कॉर्पोरेट एक्शन के माध्यम से

शेयरधारक नोट कर लें कि दावे न किए गए लाभांश तथा आईईपीएफ में ट्रांसफर किए गए शेयरों तथा इन शेयरों से उत्पन्न लाभों के लिए आईईपीएफ नियम, 2016 में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण से वापिस ले सकते हैं।

उपर्युक्त के संबंध में कंपनी से किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा सूचना प्राप्त करने वं लिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ 65, प्रथम तल, ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेज 1. नई दिल्ली—110020. फोन —011— 4140 6149. फैक्स:—011—4170988[,] ईमेल:—admin@mcsregistrars.com, ajay@mcsregistrars.com से संपर्क करें।

> बोर्ड के आदेश द्वारा कृते एमएमटीसी लिमिटेड हस्ता / -(जी आनंदनारायणन) कंपनी सचिव



दिनांक: 03.09.2021

रचपीरल इलेक्ट्रिक एण्ड पावर लिमिटेड

सीआईएनः L74899DL1992PLC048945 पंजीकृत कार्यालयः 1 / 20, आसफ अली रोड, नई दिल्ली 110 002 दूरमाष : +91-11-23234411, फैक्स : +91-11-23232639 –मेल : hpl@hplindia.com, वेबसाइट : www.hplindia.com

29वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015, सामान्य परिपत्रों सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20 / 2020 दिनांक 5 मई, 2020 तथा 02 / 2021 दिनांक 17 / 2020 पिनाप 13 अत्रर, 2020, 207 2020 पिनाप 3 नड्, 2020 पिनाप 13 जनवरी, 2021 और सेबी परिपत्र सं सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी / परि. / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 और सेबी परिपत्र सं सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 2 / परि. / पी / 2021 / 11, दिनांक 15 जनवरी, 2021 (सामूहिक रूप से "संगत परिपुत्रों" के तौर पर संदर्भित) के साथ पठित, के सभी लागू प्रावधानों अनुपालन में कंपनी की 29वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए बृहस्पेतिवार, 30 सितंबर, 2021 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जाएगी।

संगत परिपत्रों के अनुरूप, एजीएम का नोटिस साथ में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट शीघ्र ही कंपनी के उन सभी सदस्यों को भेज दी जाएगी जिनके ई–मेल पते कंपनी / डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.hplindia.com और शेयर बाजारों (एनएसई और बीएसई) की वेबसाइट तथा केफिन टेक्नोलॉजिज प्रा. लिमि. ("केफिन टेक.") की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर भी उपलब्ध होंगे।

ई-मेल पते के पंजीकरण / अद्यतन का तरीकाः

a.) भौतिक पद्धति में शेयरधारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई–मेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत / अद्यतन नहीं किए हैं, से अनुरोध है कि वे https://ris.kfintech.com/ hplcs@hplindia.com पर अथवा केफिन टेक्नोलॉजिज प्रा. einward.ris@kfintech.com पर लिखकर इसे पंजीकृत / अद्यतन करा लें।

b.) डीमैटीरियलाइज्ड पद्धति में शेयर धारण करने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ई–मेल पते अपने डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत / अद्यतन नहीं कराए हैं, से अनुरोध है कि वे अपने ई—मेल पते डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास, जिसके साथ उनके डीमैट खाते

रखरखाव में हैं, रजिस्टर / अद्यतन करा लें। लाभाश प्राप्त करने के लिए अधिदेशः

OSBI

खाता / कर्जदार का

सिंह सचदेवा, 370, डीडीए जनता

फ्लैट, नंद नगरी, दिल्ली 110093

सदस्य नोट कर लें कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 जून, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक 10 / – रू के सांकेतिक मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर रू 0.15 / – के लाभांश की सिफारिश की है। लाभांश का, यदि घोषित किय जाता है, इलेक्ट्रॉनिकी रूप में विभिन्न ऑनलाइन स्थानांतरण पद्धतियों के जरिए उन जाता है, इरिक्यूनार्थिक अने ने प्राचीन अनिराहित है। श्रीयरधारकों को 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाता विवरण अद्यत्तन कर रखे हैं। उन श्रीयरधारकों के लिए, जिन्होंने अपने बैंक खाता विवरण अद्यत्तन नहीं किए हैं उनके पंजीकृत पतों पर लाभांश वारंट भेज दिए जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने व लिए शेयरधारकों से अनरोध है कि वे अपने बैंक खाते में सीधे लाभांश प्राप्त करने के लिए अपने डिपाजिटरीज और कंपनी के आरटीए के पास केवाईसी अद्यतन कर दें। ई—वोटिंग के जरिए मतदान करने का तरीकाः

कंपनी अपने सभी सदस्यों को नोटिस में निर्धारित संकल्पों पर अपना मतदान करने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करेगी। तदनुरूप, कंपनी एजीएम के दौरान भी ई–वोटिंग प्रणाली के जिरए मतदान करने की चुविधा उपलब्ध कराएगी। रिमोट ई—वोटिंग / एजीएम में ई—वोटिंग के जरिए मतदान करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया नोटिस में उपलब्ध कराई जाएगी।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड विवेक कुमार कंपनी सचिव एवं अनुपालना अधिकारी स्थानः नोएडा दिनांकः 03.09.2021 स. सं. ए1849



8 न्यू राजधानी एनक्लेव, विकास मार्ग, प्रीत विहार, दिल्ली—110092

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) (नियम 8(1))

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम २००२ (२००२ का ५४) के प्रवर्तन के अधीन **बैंक ऑफ बडौदा, का** प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत ऋण धारक **उधारकर्ताओं मैसर्स समरवाल इंटरप्राइजेज, श्री** पंकज सबरवाल (प्रोप.), ए—6, प्रथम तल, अग्रवाल धर्मशाला वाली गली, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली—32 को मांग सूचना दिनांक 09.04.2021 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 23,05,972.00 (रु. तेईस लाख पाँच हजार नौ सौ बहत्तर मात्र) दिनांक 01. **04.2021 से भविष्य का ब्याज, एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से

60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था। ऋणधारक राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा उधारकर्ता निदेशकों, बंधककर्ता, गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने बंधक संपत्ति का कब्जा लेने के लिए उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक **02.09.2021** को ले लिया है। विशेष रूप से ऋणधारक तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्तियो के साथ लेन—देन न pरने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन **बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रीत** विहार, दिल्ली शाखा के प्रभार वास्ते रू 23,05,972.00 (रु. तेईस लाख पाँच हजार नौ सौ बहत्तर **मात्र) दिनांक 01.04.2021 से भविष्य का ब्याज, एवं अन्य प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा। हर्णधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

साम्यिक बंधक सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट 1 / 2475, द्वितीय तल, रामनगर, शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित, क्षेत्रफल 48.80 वर्ग मी (160.10 वर्ग फीट) यह सम्पत्ति मनीषा गुप्ता पत्नी श्री धीरज के नाम पर है। चौहद्दी . उत्तर में — अन्य की सम्पत्ति, पूरब में — अन्य की सम्पत्ति, पश्चिम में — 20फीट चौड़ा रोड, दक्षिण में — 5फीट चौडा रोड

दिनांक : 02.09.2021, स्थान : दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

हाईडलबर्गसीमेंट इण्डिया लिमिटेड

सीआईएन : एल26942एचआर1958एफएलसी042301 पंजीकृत कार्यालय. : द्वितीय तल, प्लॉट नं. 68, सेक्टर 44, गुरूग्राम, हिरयाणा-122002 फोन: +91 0124-4503700 फैक्स : +91 0124-4147698 ई मेलः investors.mcl@mycem.in; वेबसाइट : www.mycemco.com

सूचना यह हमारे पूर्व संचार दिनांक 28 अगस्त, 2021 के निरंतर में है जिसके तहत हमने सूचित किया था कि निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र नं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 और 02/2021 क्रमश: दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई 2020 और 13 जनवरी 2021 ("एमसीए परिपत्रों'') और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12 मई 2020 और 15 जनवरी, 2021 ("सेबी परिपत्र") के साथ पठित कंपनीज अधिनियम 2013 ("अधिनियम") और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 62वीं वार्षिक साधारण बैठक सोमवार. 27 सितंबर. 2021 को सबह 11.00 बजे आयोजित की जाएगी। 62वीं एजीएम की सचना में वर्णित अनसार व्यापार का लेन-देन करने के लिए कॉमन विजुअल माध्मयों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

बोर्ड की रिपोर्ट, अंकेक्षण की रिपोर्ट और एजीएम की सुचना युक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा एजीएम से जुड़ने के लिए लॉग-इन विवरण के सहित उससे जुड़ने और ई–वोटिंग सुविधा के द्वारा वोट डालने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों सहित 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण व एजीएम की सूचन शक्रवार, 03 सितम्बर, 2021 को उन सभी सदस्यों को भेजी जा चकी है जिनके ई–मेल पते . उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में कंपनी के रजिस्टार या शेय हस्तांतरण एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ पंजीकत थे त्रार्षिक रिपोर्ट 2020-21 कंपनी की वेबसाइट www.mycemco.com स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") www.evoiting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। कंपनीज प्रबंधन व प्रशासनिक नियमावली, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के

ग्रावधानों और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवालय मानक-2 सेबी (एलओडीआर) विनियमों की विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, सदस्यों को एजीएम की सुचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जा रही है। रेमोट ई-वोटिंग की शुरूआत शुक्रवार, 24 सितंबर, 2021 को सुबह 9.00 बजे आईएसटी पर

होगी और रविवार, 26 सितंबर, 2021 को शाम 5.00 बजे आईएसटी पर बंद होगी। इस अवधि के दौरान सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। इसके बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डालने वाले सदस्य वीसी/ओएवीएम सविधा

द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग सविधा के माध्यम से दोबारा अपने वोट नहीं डाल सकते। एक सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डाले जाने के बाद . सदस्य इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन

नहीं कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम से जुड़ने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तत निर्देश एजीएम की सचना में दिये गए हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ-डेट अर्थात् सोमवार, 20 सितंबर, 2021 तक उनके द्वार लिए गए इक्विटी शेयरों के अनपात में होंगे। व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ-डेट तक डिपॉजिटरी

द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में या सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वही एजीएम से जुड़ने, रिमोट ई-वोटिंग प्राप्त करने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। कट-ऑफ-डेट तक सदस्य न रहने वाले सदस्य इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्य से देखें। र्जीएम की सूचना के इलैक्ट्रॉनिक प्रेषण की तिथि के बाद कंपनी के सदस्य बनने वाले और शेय प्राप्त करने वाले या कट-ऑफ-डेट तक शेयर रखने वाले व्यक्ति ही एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार निर्देशों को अपनाकर और evoting@nsdl.co.in को अनुरोध भेजकर लॉग–इन आईडी

व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि वह पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए रनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो वे अपने वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी व गसवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। -वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी पूछताछ के मामले में, कृपया तुरंत पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज्) और evoting@nsdl.co.in पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरहोल्डर के

लिए ई-वोटिंग यूज़र पुस्तिका का संदर्भ लें या एनएसडीएल के टोल फ्री नं. 1800-222-990 पर iya करें या evoting@nedl co in पर अनरोध भेजें। ई-वोटिंग सविधा से संबंधित किस शिकायत के लिए, कृपया सुश्री सरीता मोटे, प्रबंधक, एनएसडीएल, चौथी मंजिल, 'ए' ट्रेड वर्ल्ड. कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुबंई 400013 ई-मेल: evoting@nsdl.co.in से संपर्क करें, टेली नं. 1800 1020 990 और 1800 224 430 यदि आपका ई-मेल पता आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत नहीं है तो आप रजिस्टर

करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। ई-मेल पता रजिस्टर करने के लिए फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर

प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (आगे व पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार की स्व–सत्यापित स्कैन्ड प्रति) देते हुए irg@integrateindia.in पर आरटीए को अनुरोध भेजें। अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया अनुसार अपने डिमेट खाते में बैंक खात

विवरण अपडेट करने व अपना ई-मेल पता रजिस्टर करने के लिए अपने

डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एजीएम में भाग लेने और वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से सोमवार, 20 सितंबर, 2021 को "रिकॉर्ड डेट" के रूप से तय किया है। एजीएम पर इक्विटी शेयरों पर लाभांश यदि घोषित होता

है, एजीएम की तिथि से तीस दिनों के भीतर सदस्यों को चुकता किया जाएगा। कृते हाईडलबर्गसीमेंट इण्डिया लिमिटेड

लीगल हैड एवं कंपनी सचिव

मांग सूचना की तारीख

03-09-2021

राजेश रेलन

बकाया राशि

प्लस ब्याज और

अन्य आकरिमक

खर्चें, इत्यादि

प्राधिकृत अधिकारी, भार<u>तीय स्टेट बैंक</u>

सम्पत्ति मालिक

पुत्र श्री सुरजीत

सिंह सचदेवा

भारतीय स्टेट बैंक , शाखा : RACPC गाजियाबाद शाखा , 105, न्यू आर्य नगर, गाजियाबाद, यू.पी-201003

स्थान : गरूग्राम

दिनांक: 03 सितम्बर, 2021

सरफासी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सम्पत्ति का कब्जा सूचना जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन **भारतीय स्टेट बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी

होने तथा प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नांकित **कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस** <mark>जारी किया था,</mark> जिसमें सूचना मे उल्लेखित **बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों <mark>के अंदर भुगतान करने को कहा गया था</mark>** कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे विफल रहे है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदारों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ

पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियो के इस्तेमाल के अन्तगर्त **निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।** रतदद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसाधारण को उक्त सम्पत्ति(याँ) के साथ लेन–देन न करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति(याँ) के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय स्टेट बैंक** द्वारा **निम्नलिखित राशि और साथ में उस पर अप्रयोजित ब्याज और भविष्य का ब्याज संविदात्मक दर पर साथ में आकरिमक व्यय एवं प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

*	क्र. सं.	खाता / कजेदार का नाम एवं पता	सम्पत्ति मालिक का नाम	बंधक / प्रभारित सम्पत्तियों का विवरण	माग सूचना की तारीख कब्जा सूचना की तारीख	
	1	श्री जब्बार तोमर पुत्र श्री बुनियाद अली, फ्लैट नं. एल—1207, टाइप जी, टावर 07, 12वीं मंजिल, ब्लॉक एल, वीवीआईपी ऐंडरेसीज, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201017	पुत्र श्री बुनियाद अली	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोिक पलैट नं. एल—1207, टाईप जी, 12वां तल, टावर 07, ब्लॉक एल, वीवीआईपी ऐडरेसीज खसरा नं. 1119, 1120, 1125, 1126, 1146, 1147 & 1117 जोिक गाँव नूर नगर और भूमि खसरा नं. 853, 854, 855 & 856 गाँव सादिक नगर, राज नगर, एक्सटेंशन, एनएच—58, गाजियाबाद, यूपी—201017 में स्थित, कवर्ड क्षेत्रफल 62.17 वर्ग मी.	10-06-2021 03-09-2021	रु. 9,43,621/- प्लस ब्याज और अन्य आकस्मिक खर्चें, इत्यादि
	2	श्री जितेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री सोहन लाल शर्मा, फ्लैट नं. एस-2, द्वितीय तल, प्लॉट नं. सी-1/63, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन ।।, भोपुरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	शर्मा पुत्र श्री सोहन लाल शर्मा	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. एस—2, द्वितीय तल, प्लॉट नं. सी—1/63, डीएलएफ दिलशाद एक्स।।, भोपुरा, गाजियाबाद में स्थित, क्षेत्रफल 37.16 वर्ग मी., चौहद्दी: पूरब में — प्लॉट नं. सी—1/62, पश्चिम में — प्लॉट नं. सी—1/64, उत्तर में — प्लॉट नं. सी—1/60, दक्षिण में — 25फीट रोड	24-02-2021 03-09-2021	रु. 10,85,951/- प्लस ब्याज और अन्य आकस्मिक खर्चें, इत्यादि
	3	श्री पंकज जिंदल पुत्र श्री के एम जिंदल और श्रीमती रेणु जिंदल पत्नी श्री पंकज जिंदल, प्लॉट नं 106, फ्लैट—सी, द्वितीय तल, शामक गार्ड न एन्क्लेव, डासना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201014	पुत्र श्री के एम जिंदल और श्रीमती रेणु जिंदल	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि शामक गार्डन एन्क्लेव हड़बस्त गांव डासना, प्लॉट नं.—106, दूसरी मंजिल, सुपर एवआईजी टाइप सुपर कवर्ड क्षेत्रफल 185.80 वर्ग मीटर, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, चौहद्दी : पूरब में — प्लॉट नं. 105, पश्चिम में — प्लॉट नं. 107, उत्तर में — 12 मी. चौड़ी रोड, दक्षिण में — पार्क	24-03-2021	रु. 29,17,293/- प्लस ब्याज और अन्य आकस्मिक खर्चें, इत्यादि
	4	श्री सचिन सचदेवा पुत्र श्री सुरजीत	श्री सचिन सच्देवा	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोिक फ्लैट नं. एफ—3, प्रथम तल, प्लॉट	02-12-2020	रु. 14,09,197/-

चौडा, दक्षिण में — रोड 15 फीट चौडा

नं. 15, ब्लॉक एस, एलआईजी, बिना छत के अधिकार के, कवर्ड क्षेत्रफल 37.16

वर्ग मी., डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन ।।, ग्राम ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, परगन

लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित, चौहदी : पूरब में

– प्लॉट नं. एस —14, पश्चिम में — प्लॉट नं. एस—16, उत्तर में — रोड 12 फीट